

Roll No. \_\_\_\_\_

25415-MN

**B.Sc. IV SEMESTER [MAIN/ATKT] EXAMINATION  
MAY- JUNE 2025**

**MICROBIOLOGY  
[Microbial physiology and Metabolism]  
[Minor Subject]**

*[Max. Marks : 60]*

*[Time : 3:00 Hrs.]*

Note : All THREE Sections are compulsory. Student should not write any thing on question paper.  
नोट : सभी तीन खण्ड अनिवार्य हैं। विद्यार्थी प्रश्न—पत्र पर कुछ न लिखें।

**[Section - A]**

This Section contains **Multiple Choice Questions**. Each question carries **1 Mark**. All questions are compulsory.  
इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

**Q. 01** EMP Pathway is -

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| a) Kreb cycle   | b) Glycolysis      |
| c) Cori's cycle | d) Gluconeogenesis |

EMP पाथवे क्या है –

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| a) क्रेब चक्र | b) ग्लायकोलिसिस      |
| c) कोरी चक्र  | d) ग्लूकोनियोजेनेसिस |

**Q. 02** Hemoglobin exists in \_\_\_\_\_ structure -

- |             |               |
|-------------|---------------|
| a) Primary  | b) Secondary  |
| c) Tertiary | d) Quaternary |

हीमोग्लोबिन की संरचना होती है –

- |             |               |
|-------------|---------------|
| a) प्रायमरी | b) सेकेन्डरी  |
| c) टरशरी    | d) क्वाटर्नरी |

**Q. 03** According to EC, all enzymes have been classified into \_\_\_\_\_ classes -

EC के अनुसार एन्जाइम कितने वर्गों में विभाजित किये गए हैं –

- |      |      |
|------|------|
| a) 4 | b) 6 |
| c) 8 | d) 7 |

P.T.O.

**Q. 04** Vitamin B and Vitamin C are -

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) Fat soluble                | b) Water soluble                 |
| c) Both fat and water soluble | d) Neither fat nor water soluble |
- विटामिन B एवं विटामिन C –
- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| a) फैट सोल्यूबल                   | b) पानी में घुलनशील                |
| c) फैट एवं पानी दोनों में घुलनशील | d) फैट एवं पानी दोनों में अघुलनशील |

**Q. 05** The most commonly occurring DNA type is -

सर्वाधिक पाया जाने वाला DNA का प्रकार है –

- |          |           |
|----------|-----------|
| a) A-DNA | b) B-DNA  |
| c) Z-DNA | d) hn-DNA |

---

**[Section - B]**

This Section contains **Short Answer Type Questions**. Attempt **any five** questions in this section in 200 words each. Each question carries **7 Marks**.

इस खण्ड में लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं पांच प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 200 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

---

**Q. 01** Draw the structures and explain the bonds formed in cellobiose, maltose and sucrose.

सेलोबायोज़, मालटोज एवं सूक्रोज की संरचना बनाकर उनमें बंधों को समझाइये।

**Q. 02** Explain Aerobic Respiration.

एरोबिक रेस्पीरेशन समझाइये।

**Q. 03** Give the classification of amino acids.

अमीनो अम्लों का वर्गीकरण समझाइये।

**Q. 04** Explain Biological Nitrogen Fixation.

बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन समझाइये।

**Q. 05** Explain coenzymes and cofactors giving suitable examples.

उदाहरणों के माध्यम से कोएन्जाइम एवं को-फेक्टर समझाइये।

**Q. 06** Explain induced fit hypothesis of enzyme function.

एन्जाइम फंक्शन की इन्ड्यूज्ड फिट सिद्धान्त समझाइये।

Cont. . .

**Q. 07** Explain different classes of structural lipids.  
संरचनात्मक लिपिड के विभिन्न वर्गों का वर्णन कीजिये।

**Q. 08** Explain Watson Crick model of DNA structure.  
DNA संरचना का वाट्सन क्रिक मॉडल समझाइये।

---

**[Section - C]**

This section contains **Essay Type Questions**. Attempt **any two** questions in this section in 500 words each. Each question carries **10 marks**.

इस खण्ड में दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं दो प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 500 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न **10** अंकों का है।

---

**Q. 09** Explain in detail electron transport chain.  
इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन विस्तार से समझाइये।

**Q. 10** Explain the secondary and tertiary protein structure  
प्रोटीन संरचना का सेकन्डरी एवं टरशारी स्ट्रक्चर समझाइये।

**Q. 11** Explain the different type of enzyme inhibition. Give examples.  
विभिन्न प्रकार के एन्जाइम इन्हींविशन समझाइये। उदाहरण दीजिये।

**Q. 12** Describe the sources importance and deficiency disorders of fat soluble vitamins.  
फैट में घुलनशील विटामिन के स्रोत, महत्व एवं कमी से होने वाली बीमारियों का वर्णन कीजियें।

---

○